



# SHRI NIWAS LEASING AND FINANCE LIMITED

Mob. : +91-9891709895, 9891095232  
+91-11-47476071

Regd. Office : 47/18, Old Rajendra Nagar, Rajendra Place Metro Station, New Delhi - 110060  
E-mail : shriniwas.limited@gmail.com, Website : shriniwasleasingfinance.com  
CIN : L65993DL1984PLC019141

Date: - 03.11.2020

To,  
Department of Corporate Services  
Bombay Stock Exchange Limited  
P. J. Towers, Dalal Street,  
Mumbai- 400001

Sub: - Submission of Newspaper Clipping of Advance Notice for the Board Meeting as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Script Code: 538897

Dear Sir,

With reference to the above mentioned subject, please find attached herewith the copies of Newspapers- Dainik Mahalakshmi Bhagyodaya (Hindi News Paper) and Money Makers (English Newspaper) dated **03.11.2020** in which the notice of Board Meeting has been published.

You are requested to take the above on your records and acknowledge the same.

For and on behalf of  
Shri Niwas Leasing And Finance Limited

Ravi Kumar Dhaker  
Company Secretary

# Hotels are biggest users of fire clearance

**MM BUREAU**  
New Delhi/November 02  
Two months after they were allowed to reopen their businesses, owners of hotels and guest houses in the national capital are a worried lot. While their businesses were already hit by the Covid-19 pandemic, a lack of clarity about new fire safety norms, notified by the Delhi government in May last year, have compounded their concerns.

The Delhi Hotel and Restaurant Owners Association (DHROA) met state urban development Secretary Jain last month to request him to extend by a year the deadline for the implementation of the new

norms that are currently under review. The existing deadline was March 31, 2020. The Delhi government had notified the new fire safety norms in May, three months after a fire in Karol Bagh's Arpit Palace hotel claimed 17 lives. But following objections raised by hotel and guest house owners, the Delhi government had in November last year constituted a sub-committee chaired by a special commissioner of police (licensing) to review and make appropriate recommendations for fire safety in these institutions. The owners were given time till March 31 this year to comply with the new norms. Mohit Shah, general



secretary, DHROA, said, "There is no clarity on what the status of the new fire safety norms is. We are in a Catch-22 situation. Our establishments have clearance from the fire department as per the old norms. We don't know if we

is yet to submit its report, a senior government official said. A senior Delhi Police officer with the licensing department said, "The report is almost final and is expected to be submitted in the coming week." When contacted, Jain said, "We will extend the time for compliance due to the Covid-19 situation." Hotel owners said they want the deadline to be extended at the earliest. Murli Mani, owner of a hotel in Karol Bagh and DHROA chairman, said, "The norms is badly hit due to Covid. We are operating the business in fear due to a lack of clarity about the fire norms. In case there is a fire incident, will the existing fire

NOC (no-objection certificate) be considered valid? The fire department is also not renewing expired NOCs. What will happen to those people?" A senior Delhi Fire Services (DFS) official, who asked not to be named, said, "Those who have not complied with the changes notified in May 2019, do not technically have a valid NOC. As the deadline for implementation has not been extended and the amendment to the new rules not notified, the rules that were notified in May are in force." As per the new amendments, kitchen or cooking activity in any form is not allowed on rooftops or basements of buildings,

and storage of inflammable materials or temporary roofing is banned in terraces. Besides, inflammable materials — like carpets and wooden or foam panelings — are not allowed on passages, corridors and staircases of buildings, and storage of gas cylinders in violation of standards prescribed by the National Building Code is also banned. The hotel owners had raised objections to a few provisions in the amendment, such as installation of Carbon monoxide detectors and fire check or protection doors, and no fire NOCs to hotels with more than four floors. "We had objected to installation of fire check doors in guesthouses and suggested that sprinklers

be allowed. There were other issues which we had raised. We want our fire NOC to be considered valid till next year. The government should notify the new norms at the earliest," said Bodily Lohia, president of Mahalpuram hotel owners' association. Former DFS chief AK Sharma said that the government should notify the new norms so that hotel owners can comply with it. "The government should take cognisance and extend the deadline for implementation. Now that the deadline for implementation has not been extended so far, the new rules notified in May are currently in force. But hotel owners can't be held responsible as the government.

# Delhi Govt lists over 800 open spaces for residents to burn crackers during Diwali

**MM BUREAU**  
New Delhi/November 02  
The Delhi Police has published a list of over 800 open spaces across the city where people will be permitted to burn "green" firecrackers between 8pm and 10pm on Diwali. The list comes even as the Delhi government is scheduled to launch a campaign on Tuesday urging people not to burn fire crackers this Diwali in light of air pollution, which is a greater concern this year owing to the present Covid-19 crisis.



People are allowed to burn firecrackers in 800 open spaces across the city.

Diwali this year will be celebrated on November 14. Delhi environment minister Gopal Bat, in line with a 2018 Supreme Court order, said the government has allowed the manufacture and sale of only green crackers, which contain fewer polluting substances as compared to traditional ones.

and are less noisy as well. In 2018 and 2019, despite the ban on the sale of traditional crackers and due to the low availability of low-emission varieties, pollution levels in the city saw a major spike after Diwali. Till last year, green varieties of only 'phulhari' (sparklers), rocket and 'anar' (flower pots) were available. More options are available in markets this year. Kai also said, "I appeal

city's 272 municipal wards. Some of the prominent locations include Buddha Park in Mayapuri, a park in B block of Chanakyaपुरी, Rameela ground in Laxmi Nagar, Ajmal Khan Park in Karol Bagh, Sudarshan Park in Moti Nagar, West Mehram Nagar Park in Delhi Cantonment, CBD ground opposite Hotel Leela and Gandhi Park in Saket.

A senior government official said the list was released to ensure that even if people choose to burn green firecrackers, they do it in common locations that are more open, instead of streets, lanes and parking areas in residential areas. Local police and administration officials are also likely to set a cap on the size of gatherings in each open space. Enforcement teams will also remain active during Diwali, a senior official

in the government's revenue department said. BS Vohra, president of East Delhi resident welfare associations' front, said, "We shall be asking members to celebrate Diwali without firecrackers this year. We have already started campaigns through social media platforms. The initiative on part of the government to identify locations for community celebrations reflect good intent, but it can't be said how much it can actually persuade people. We need better awareness campaigns and stricter enforcement of existing norms."

A total of 260 applications for firecracker shop licenses have been received so far by Delhi Police, which issued 138 licenses till Thursday night. A number much higher compared to 2019 when only 97 had applied of which 62

had received permission to sell firecrackers. Eligible shopkeepers can start selling from Monday. Anumita Roychowdhury, executive director at the Centre for Science and Environment, said, "The government has to invest in an intensive campaign this year to encourage people not to burn firecrackers. The air pollution problem and spike in covid-19 cases together can create a health disaster. With issuing a list of designated locations for burning firecrackers and setting a time window, the government is apparently trying to ensure that residential areas witness less pollution because of firecrackers during Diwali. But, with that, the government should also make firecracker shop licensing norms more stringent in order to curb accessibility to firecrackers."

# Delhi Police sub-inspector kills himself with service pistol

**MM BUREAU**  
New Delhi/November 02  
A sub-inspector (S-I) of Delhi Police allegedly killed himself with his service pistol at his residence in Outer Delhi's Mohan Garden near Ranhola early in the morning on Monday. Police officers said they have learnt that the 26-year-old S-I, who was posted at a police station in outer district, killed himself due to some financial trouble. A Kansa, deputy commissioner of police (DCP), (outer), Delhi Police, said that the Ranhola police station authorities received a call at 5.15 am regarding death by suicide by a man at his home. The caller was the brother of the deceased. A police team


reached his home and found that the deceased was an S-I of Delhi Police. "The S-I took the extreme step in a room on the ground floor of his house. His body was on the bed. He used his service pistol," said a police official, requesting anonymity. DCP Kansa said that the S-I had worked on Sunday. "We have learnt that he killed himself over some financial trouble. Further investigation is in progress," he said. The police are probing how the S-I managed to bring his service pistol home after his work got over on Sunday. It is being investigated whether the in-charge of the unit was a store room in a police station where arms and ammunition are kept — of the police station where the S-I was posted was aware that deceased did not return his service weapon after his duty got over, the officer added.

# North-east Delhi riots HC sets aside trial court's order granting bail to private school principal

**MM BUREAU**  
New Delhi/November 02  
The Delhi high court on Monday set aside a trial court order granting bail to Rajdhani School principal Farooq, an accused in the north-east Delhi riots, while stating that "the entire country is aggrieved by the action of such offenders who tarnish the basic secular fabric of the nation and needs to be punished severely". Cancelling the bail granted to Farooq on June 20 by additional sessions Judge Vinod Yadav, Justice Suresh Kait said that the lower court had failed to appreciate that while deciding an application for bail, the society's interest is also to be safeguarded. He said that "personal liberty of an individual, though precious, is of little value if the larger interest of the people and nation are at

stake." The Delhi police had challenged the bail granted to Farooq who had been charged for hatching a conspiracy to precipitate and aggravate riots, in and around his school. According to the police, it was on his directions that the adjacent convent school, two parking lots run by the other party and the building of one Aul Sweets were destroyed by the mob. The police claimed in the charge sheet that the call detail analysis of Farooq suggested that he had links with prominent members of Popular Front of India, Punjab Tod group, Jamia Coordination Committee, and other persons, which indicate the depth of the conspiracy. While cancelling Farooq's bail, the judge


said, "The accused has been charged with criminal conspiracy. His absence from the spot does not absolve him of his liability in this case." In their charge sheet, the police had claimed that the rioters had camped inside and fired bullets from the terrace of Rajdhani School. They also threw petrol bombs, acid, bricks, stones and other missiles using an improvised large iron catapult, specially installed for the purpose, from the terrace. Police also said that on February 24, the day of the riots, many children had been told to leave the school early, along with their parents, during the half time.



# Delhi Govt mulls ban on sale of loose cigarettes, beedis

**MM BUREAU**  
New Delhi/November 02  
The Delhi government is mulling to ban the sale of loose cigarettes and beedis to discourage people from consuming such items as they are injurious to health.

A senior government official said on condition of anonymity that the Maharashtra government had imposed a similar ban in September last year. "This matter is still being discussed and is at a very initial stage at the moment. Legally, it is possible. The rule laid down by the central government states that no person can trade or do commerce in cigarettes or any other tobacco product, unless when such product is sold, supplied or distributed by him/her, it bears thereon on its label the specified health warning," said the official. The ban can be imposed under sub-section 2 of section 7 of the cigarettes and other tobacco products (prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce, production



**MOONGIPA SECURITIES LIMITED**  
CIN : L74899DL1994PLC057941  
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005. Ph: +91-11-41450121  
Email: moongipa@gmail.com Website: www.moongipa.net

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 10, 2020, inter alia, to consider and approve the Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020. Investor may visit the Websites of the Company www.moongipa.net and the Stock exchange www.bseindia.com for further details in this regard.

For MOONGIPA SECURITIES LIMITED  
Sd/-  
Sanjeev Jain  
Place: Delhi Company Secretary & Compliance Officer

**MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED**  
CIN : L5593DL1987PLC028669  
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005. Ph: 011-41450121  
Email: moongipa@gmail.com Website: www.moongipa.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Tuesday, November 10, 2020, inter alia, to consider and approve the Standalone Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2020. Investor may visit the Websites of the Company www.moongipa.com and the Stock exchange www.bseindia.com for further details in this regard.

For MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED  
Sd/-  
Gulshan Ahuja  
Place: Delhi Company Secretary & Compliance Officer

**CAPITAL FINVEST LIMITED**  
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005. Ph: +91-11-41450121  
Email: capitalinvest@gmail.com Website: www.capitalinvest.com

**NOTICE**  
Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 10th November, 2020 to approve the unaudited financial results of the Company for the second quarter and half year ended 30th September, 2020. Further, this information is also available on the website of the Company www.capitalinvest.com and on the website of the stock exchange www.bseindia.com

For Capital Invest Limited  
Sd/-  
NATIAN SINGH  
Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

**ABHIL TRADING CO LTD**  
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005. Ph: +91-11-41450121  
Email: abhiltrading@gmail.com Website: www.abhiltrading.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th November, 2020 at 12:00 PM at the Regd. Office of the Company. Inter alia, to consider and approve the unaudited financial results of the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the investors concerned under the company's Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Investors with effect from 03/10/2020 to the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of the Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company www.abhiltrading.com and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com

By order of the Board  
For Abhil Trading Company Secretary & Compliance Officer  
Sd/-  
Ajay Singh  
Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

**ALISTAR TEXTILES (INDIA) LIMITED**  
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005. Ph: +91-11-41450121  
Email: alistar@gmail.com Website: www.alistar.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th November, 2020 at 12:00 PM at the Regd. Office of the Company. Inter alia, to consider and approve the unaudited financial results of the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the investors concerned under the company's Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Investors with effect from 03/10/2020 to the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of the Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company www.alistar.com and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com

By order of the Board  
For Alistar Textiles Company Secretary & Compliance Officer  
Sd/-  
Ajay Singh  
Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

**SHRI NIKAS LEASING AND FINANCE LIMITED**  
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005. Ph: +91-11-41450121  
Email: shri Nikas@gmail.com Website: www.shri Nikas.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th November, 2020 at 12:00 PM at the Regd. Office of the Company. Inter alia, to consider and approve the unaudited financial results of the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the investors concerned under the company's Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Investors with effect from 03/10/2020 to the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of the Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company www.shri Nikas.com and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com

By order of the Board  
For Shri Nikas Leasing And Finance Limited  
Sd/-  
NATIAN SINGH  
Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

**GENERS DEVELOPERS AND BUILDERS LIMITED**  
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005. Ph: +91-11-41450121  
Email: geners@gmail.com Website: www.geners.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th November, 2020 at 12:00 PM at the Regd. Office of the Company. Inter alia, to consider and approve the unaudited financial results of the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the investors concerned under the company's Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Investors with effect from 03/10/2020 to the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of the Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company www.geners.com and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com

By order of the Board  
For Geners Developers And Builders Limited  
Sd/-  
NATIAN SINGH  
Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

**HILLIDGE INVESTMENTS LIMITED**  
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005. Ph: +91-11-41450121  
Email: hillidge@gmail.com Website: www.hillidge.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th November, 2020 at 12:00 PM at the Regd. Office of the Company. Inter alia, to consider and approve the unaudited financial results of the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the investors concerned under the company's Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Investors with effect from 03/10/2020 to the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of the Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company www.hillidge.com and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com

By order of the Board  
For Hillidge Investments Limited  
Sd/-  
NATIAN SINGH  
Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

# AAP calls North MCD 'corrupt', demands CAG probe; BJP says allegation 'baseless'

**MM BUREAU/New Delhi/November 02**  
The Ann Andhra Party (AAP) on Sunday accused the Bharatiya Janata Party (BJP)-led Delhi Municipal Corporation of corruption, and said the civic body has been under-reporting the amount of property tax it has collected every year, and demanded the Comptroller and Auditor General (CAG) investigate the matter. The BJP, which governs the three municipal corporations in the city, hit back, saying the allegations are "baseless". "The North MCD should be collecting 12,100 crore as property tax from 12 lakh people every year, but records show that only 1700 crore is collected annually from four lakh people. The remaining 11400 crore is siphoned off," said Durgesh Pathak, AAP's in charge of municipal corporation affairs. He also said, "The BJP leaders are looting 11400 crore collected by the MCD in the name of property tax, due to which they cannot pay their employees — doctors, nursing staff, teachers and sanitation workers. AAP demands that this matter should be thoroughly investigated by the CAG." BJP's Delhi unit spokesperson Praveen Shankar Kapoor said, "AAP is a bunch of people who are experts on baseless statements. The party is in power in the Delhi government, and if they feel there is any kind of scam in MCDs they are free to recommend a CBI (Central Bureau of Investigation) probe, or else they should stop churning baseless allegations."



Durgesh Pathak, AAP's in charge of municipal corporation affairs.

Kanta Prasad, the owner of the popular eatery 'Baba Ka Dhaba' in south Delhi's Malviya Nagar, has filed a complaint against Instagram influencer Gaurav Wasan for misappropriation of funds, police said on Sunday. Prasad (80) had shot to fame after a video of him tearfully recounting the deprivation of the man since the lockdown was shared widely across social media platforms recently. Ironically, Prasad's despair had come to light when Wasan captured the eatery owner breaking down as he talked about his struggles in a video shared on the YouTube's social media account. In his complaint to police, Prasad said Wasan shot his video and posted it online and convinced the public on social media to donate money to the eatery owner. He further alleged that Wasan "intentionally and deliberately shared only his and his family's bank details and mobile numbers with the donors and collected huge amount of donation through different mode of payments i.e bank account/wallets without providing any information to the complainant". The owner of the food joint also accused the YouTube

# 'Baba Ka Dhaba' owner accuses YouTuber of misappropriation of funds

**MM BUREAU/New Delhi/November 02**  
Kanta Prasad, the owner of the popular eatery 'Baba Ka Dhaba' in south Delhi's Malviya Nagar, has filed a complaint against Instagram influencer Gaurav Wasan for misappropriation of funds, police said on Sunday. Prasad (80) had shot to fame after a video of him tearfully recounting the deprivation of the man since the lockdown was shared widely across social media platforms recently. Ironically, Prasad's despair had come to light when Wasan captured the eatery owner breaking down as he talked about his struggles in a video shared on the YouTube's social media account. In his complaint to police, Prasad said Wasan shot his video and posted it online and convinced the public on social media to donate money to the eatery owner. He further alleged that Wasan "intentionally and deliberately shared only his and his family's bank details and mobile numbers with the donors and collected huge amount of donation through different mode of payments i.e bank account/wallets without providing any information to the complainant". The owner of the food joint also accused the YouTube



Kanta Prasad, the owner of the eatery 'Baba Ka Dhaba'.

**SUNSHINE CAPITAL LIMITED**  
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005. Ph: +91-11-41450121  
Email: sunshinecapital@gmail.com Website: www.sunshinecapital.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th November, 2020 at 12:00 PM at the Regd. Office of the Company. Inter alia, to consider and approve the unaudited financial results of the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the investors concerned under the company's Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Investors with effect from 03/10/2020 to the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of the Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company www.sunshinecapital.com and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com

By order of the Board  
For Sunshine Capital Limited  
Sd/-  
NATIAN SINGH  
Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

**GENERS DEVELOPERS AND BUILDERS LIMITED**  
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005. Ph: +91-11-41450121  
Email: geners@gmail.com Website: www.geners.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th November, 2020 at 12:00 PM at the Regd. Office of the Company. Inter alia, to consider and approve the unaudited financial results of the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the investors concerned under the company's Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Investors with effect from 03/10/2020 to the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of the Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company www.geners.com and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com

By order of the Board  
For Geners Developers And Builders Limited  
Sd/-  
NATIAN SINGH  
Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

**HILLIDGE INVESTMENTS LIMITED**  
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005. Ph: +91-11-41450121  
Email: hillidge@gmail.com Website: www.hillidge.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th November, 2020 at 12:00 PM at the Regd. Office of the Company. Inter alia, to consider and approve the unaudited financial results of the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the investors concerned under the company's Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Investors with effect from 03/10/2020 to the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of the Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company www.hillidge.com and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com

By order of the Board  
For Hillidge Investments Limited  
Sd/-  
NATIAN SINGH  
Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

**SHRI NIKAS LEASING AND FINANCE LIMITED**  
Regd. Off: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi - 110005. Ph: +91-11-41450121  
Email: shri Nikas@gmail.com Website: www.shri Nikas.com

**NOTICE**  
Pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 10th November, 2020 at 12:00 PM at the Regd. Office of the Company. Inter alia, to consider and approve the unaudited financial results of the quarter and half year ended on 30th September, 2020 and to consider any other business, if any.

Further, the company has already closed the trading window for the investors concerned under the company's Code of Conduct to Regulate, Monitor & Report Trading by Investors with effect from 03/10/2020 to the completion of 48 hours after the declaration of Unaudited Financial Results of the Company in accordance with SEBI (PIT) Reg. 2015.

The information contained in this notice is also available on the website of the Company www.shri Nikas.com and also on the website of BSE Ltd. i.e. www.bseindia.com

By order of the Board  
For Shri Nikas Leasing And Finance Limited  
Sd/-  
NATIAN SINGH  
Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer

